मनमोहना । by Reshmi Sharma

ऐसा सज धज बैठा मेरा साँवरा, नैनों से इशारे कोई करता, एक दिल मेरा जिसे मनमोहना, सौ सौ बारी चोरी करता,

सौ सौ बारी चोरी करता, सौ सौ बारी चोरी करता,

ओ पता नहीं उसे कौनसा खुमार चढ़ता है, श्याम का दीदार जो एक बार करता है, बन के दीवाना वो दर पे नाचता फिरे, ऐसा जादू साँवलिया सरकार करता है,

श्याम प्यारे के जैसा चितचोर कोई नहीं, मैं दीवाना हुआ मेरा कसूर कोई नहीं,

चाहे कितना भी देखु मेरे श्याम को, देख देख दिल नहीं भरदा,,

सर मोर मुकुटधारी, माथे पे टीका है, मेरे श्याम धनी के आगे तो, चंदा भी फीका है,

अधरों पे मुरली है, गल मोतियन माला है, बैठा बैठा मुस्काये, देखो खाटुवाला है,,

लट काली घुँघराली, बाली पीछे लटके, लागे नज़र ना "गोलू", तेरे जाए सदके,

डर लगता नज़र लग जाए ना, रखा करो बाबा थोड़ा पर्दा,

क दिल मेरा जिसे मनमोहना, सौ सौ बारी चोरी करता,